

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.id](http://www.govtpressmp.nic.id)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मई 2023—ज्येष्ठ 8, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 मई 2023

क्र. एफ-16-02-2022-एक-4.—राज्य शासन द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2023 के माध्यम से प्रकाशित "मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल अधिवास नियम, 2022" में परिशिष्ट 2 के अनुक्रमांक (10) के पश्चात् अनुक्रमांक (11) जोड़ा जाए :-

अनुक्रमांक (1)	प्रवर्ग (2)	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें (3)
"11.	मध्यप्रदेश के युवाओं को साक्षात्कार हेतु दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा.	सामान्य कक्ष में अधिकतम 04 दिवस निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.